

No.A. 43020/49/2014-RTI
Government of India/ Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

New Delhi. Dated 26th May, 2014.

ORDER

Subject: - First Appeal under the RTI Act, 2005 filed by Shri pradeep Kumar.

Whereas Shri Pradeep Kumar, vide his application dated 26/12/2013 (received in this Ministry on 10/01/2014) had sought information from the Ministry of Home Affairs under the RTI Act, 2005.

2. Whereas as per RTI Act, 2005 and Right to Information (Regulation of Fee & Cost) Rules, a request for obtaining information under sub section (1) of section 6 of RTI Act, 2005, shall be accompanied by an application fee of Rupees Ten either by way of cash against proper receipt or by Demand Draft or Bankers Cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer of the Public Authority from where information is sought.


3. Whereas the Indian Postal Order for Rs.10/- furnished by Shri Pradeep Kumar along with his RTI application was not payable to the correct authority i.e. "Accounts Officer, Ministry of Home Affairs". Hence, the application was returned to the applicant along with the original IPO (No.201/751577) by the CPIO vide his communication dated 27th February, 2014.

4. Whereas Shri Pradeep Kumar was also informed that the information sought in the application does not come under the purview of the Ministry of Home affairs. Since the subject matter of application related to the University Grants Commission, he was requested to obtain the information directly from them. In view of the above, the question of filing 1st Appeal does not arise.

5. However, a copy of his RTI application and appeal is being sent to the UGC for supplying information to him.

Contd...page 2/-

5. The appeal of the appellant is accordingly disposed of.



(Satpal Chauhan)

Joint Secretary & Appellate Authority

Ph. No.23093178

Shri Pradeep Kumar,
Village & P.O Kharidanwa,
Sub-Division Shahbad Markanda,
Kurukshetra (Haryana) – 136135

Copy to:

1. CPIO. University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 along with a copy of RTI application and appeal of Shri Pradeep kumar .
2. ✓ Section Officer(IT Cell), MHA for uploading of RTI application, appeal and reply under the concerned Appellate Authority with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act-Information under 4(1)(b) of the Act.

प्रथम अपील

प्रथम अपीलकर्ता अधिकारी
राजिव गृह मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली.

संख्या	2/0
C.R. No.	2/0
दिनांक	16 FEB 2014

विषय: शून्यता अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील।

अपील निवेदक: - केन्द्रिय जन शून्यता अधिकारी
अधिकारक गृह मंत्रालय
भारत सरकार नई दिल्ली

92/ST/1114(MH/2014)

04/4/14.

महोदय:-

युक्त प्राधी द्वारा शून्यता प्रारंभ करने का आवेदन निम्नलिखित

- फ्रीस सहित रजिस्ट्री ठेक द्वारा उपरोक्त केन्द्रिय जन शून्यता अधिकारी अधिकारक गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को 26-12-2013 को प्रेषित किया था। लेकिन केन्द्रिय जन शून्यता अधिकारी द्वारा मुझे आनंद तब कोई भी शून्यता प्रकाश नहीं की गई। जनांक से निवृत्त निवेदन है कि मेरी इस प्रथम अपील को प्राप्ति करते ही उपरोक्त शून्यता प्रारंभ करे। मुझे मेरी समस्त शून्यता निरस्तुल्य व शीघ्रतः शीघ्र प्रकाश प्रकाशित करने। लेकिन जन शून्यता अधिकारी द्वारा आज तक शून्यता प्रकाशित नहीं की जा रही है।

दिनांक 03-09-2014

सधन्यवाद सहित:

Randeep Kumar
प्राधी

शून्यता अधिकारी केन्द्रिय जन शून्यता अधिकारी को भेजे गये आवेदन पत्र की छापा कोपी
श. रजिस्ट्री व फ्रीस सहित फाइल की छापा कोपी।

प्रदीप कुमार ड। श्री रवि प्रकाश
ग्राम व पता मन्दावी खरीडवा
उपमंडल शाहवाप भारतकण्डा
पिन 136118

[Handwritten signature and notes]